


# राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड



निगम फार्मों का वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के  
ठेके हेतु ई-निविदा प्रपत्र

निविदा संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक		दिनांक एवं समय
1	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	07.06.2021 मध्यान्ह 12.00 बजे तक
2	बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फी के डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने की अन्तिम दिनांक, समय एवं स्थान	07.06.2021 अपरान्ह 1.00 बजे तक, स्थान राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर।
3	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	07.06.2021 अपरान्ह 2.00 बजे


# राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्रमांक: 2379

दिनांक 01/6/2021

## खुली निविदा सूचना-

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि., मुख्यालय, जयपुर द्वारा निगम फार्मों को बीज उत्पादन हेतु ठेके पर देने हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदाये दिनांक 07.06.2021 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट, एसपीपी पोर्टल राजस्थान सरकार [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in), निगम वेबसाइट [www.rajseeds.org](http://www.rajseeds.org) एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल [www.agriculture.rajasthan.gov.in](http://www.agriculture.rajasthan.gov.in) पर देखे या डाउन लोड किये जा सकते हैं।

  
जसवंत सिंह  
(प्रबन्ध निदेशक)

# राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्रमांक: 2379

दिनांक 01/6/2021


## बोली आमंत्रण सूचना-

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि., मुख्यालय, जयपुर द्वारा निगम फार्मों को वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए बीज उत्पादन हेतु ठेके पर देने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दो लिफाफो में (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) ई-निविदाये दिनांक 07.06.2021 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	फार्म का नाम	कुल क्षेत्रफल (है.)	आरक्षित राशि (रु. लाखों में) (03 वर्ष हेतु)	निविदा शुल्क मय GST (रु.)	ई-निविदा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क मय GST (रु.)
1	सांथू (जालोर)	37.75	9.67	1180	590

1. निविदाये राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाइट, एसपीपीपी पोर्टल राजस्थान सरकार [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in), निगम वेबसाइट [www.rajseeds.org](http://www.rajseeds.org) एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल [www.agriculture.rajasthan.gov.in](http://www.agriculture.rajasthan.gov.in) पर देखे या डाउन लोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुये ई-निविदा प्रपत्र इस वेबसाइट पर दिनांक 07.06.2021 मध्यान्ह 12.00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमान्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंत कृषि भवन, मुख्यालय, जयपुर एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट MD, RISL, Jaipur के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं डिमाण्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंत कृषि भवन, मुख्यालय, जयपुर पर दिनांक 07.06.2021 को अपराह्न 1.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई-निविदा दिनांक 07.06.2021 अपराह्न 2.00 बजे खोली जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही निविदा प्रपत्र भरा जाना अनिवार्य है।
3. निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग फीस की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत की जावे। यदि किसी निविदादाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने में किसी प्रकार असुविधा हो तो निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग फीस निगम के खाते में एक साथ ऑन-लाईन भी जमा करायी जा सकती है। ऑन-लाईन जमा करायी गयी रसीद की छांया प्रति तकनीकी निविदा के साथ ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. निर्धारित निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
5. निविदादाता द्वारा निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि ऑनलाईन भी निगम के निम्नलिखित खाते में जमा करायी जा सकती है-
  - i. खाते का नाम- राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि.
  - ii. बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
  - iii. खाता संख्या- 51052136667
  - iv. आई.एफ.एस.सी.-SBIN0031510
  - v. ब्रॉच का नाम - तिलक मार्ग जयपुर

6. उक्त ई-निविदायें केवल [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार आर.एस.एस.सी. का होगा।
8. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
9. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
10. बोलीदाता द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी समय मिथ्या पाये जाते हैं तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है अथवा बोलीदाता को डिबार भी किया जा सकता है या दोनो प्रकार की शास्ति लगाई जा सकती है। ऐसी बोली किसी भी स्तर पर अस्वीकार की जा सकेगी।
11. बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं लौटायी जावेगी।
12. निविदा प्रपत्र, तकनीकी विड फार्म एवं निविदा शर्तों के सम्पूर्ण पृष्ठों पर हस्ताक्षर/डिजिटल सिग्नेचर करना अनिवार्य होगा, बिना हस्ताक्षर किये प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
13. बोलीदाता द्वारा आयकर विभाग द्वारा जारी PAN एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
14. निविदादाता को प्रत्येक फार्म हेतु अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करनी होगी एवं प्रत्येक फार्म को निविदा हेतु बिड फीस, प्रोसेसिंग फीस, बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे।
15. निविदादाता द्वारा दरे सिर्फ वित्तीय बिड (BOQ) में भरी जावे। यदि तकनीकी बिड में दरे दी जाती है तो वह निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।

  
जसवंत सिंह  
(प्रबन्ध निदेशक)

## निविदा – प्रपत्र

सेवा में,

.....

.....

विषय:- निगम के फार्म को बीज उत्पादन हेतु ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24।

महोदय,

1. फार्म का नाम (जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है).....  
.....
2. निविदादाता का नाम .....
3. पूर्ण पता .....
4. टेलीफोन नम्बर ..... मोबाईल नम्बर .....ई.मेल आई.डी.....
5. निविदा शुल्क डी.डी. संख्या ..... दिनांक ..... राशि .....
6. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क डी.डी. संख्या ..... दिनांक ..... राशि .....
7. पेन नम्बर .....

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई नियम व शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता एवं सील

## निविदादाता हेतु दिशा-निर्देश

1. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व, राज्य में खरीद प्रक्रिया हेतु लागू कानून, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, जो राज्य प्रोक्यूरमेन्ट पार्टल की वेबसाईड [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है, को भली भाँति पढ़/समझ लिया जावे। किसी भी समय इन अधिनियम एवं नियमों तथा बोली दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति पाया जाता है तो, अधिनियम एवं नियम के प्रावधान मान्य होगा।
2. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity)** :- कोई भी व्यक्ति जिसने RTPP अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 80 के प्रावधानों के तहत निर्धारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, खरीद प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, बोलीदाता को विड डोक्यूमेन्ट के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-“अ” में कोड ऑफ इन्ट्रिग्रेटी की पालना करने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. **बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन:-** बोलीदाता या संभावित बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर उपापन संस्था द्वारा अधिनियम 2012 की अध्याय IV, धारा 11(3) और 46 के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
4. **बोली दस्तावेजों में सम्मिलित :-** बोली दस्तावेजों में, निविदा शर्तें, तकनिकी बिड, बोली आमंत्रण सूचना, योग्यता मापदण्ड, सप्लाई ऑफ शिड्यूल एवं जारी किया गया कोई भी संशोधन इत्यादि, समस्त सम्मिलित होंगे।
5. **बोली दस्तावेजों का विक्रय :-** बोली दस्तावेजों का विक्रय, बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की दिनांक से प्रारम्भ होकर, विड प्राप्त करने के एक दिन पूर्व तक, [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल से डाउनलोड करने पर विड डोक्यूमेन्ट फीस का भुगतान डी.डी. द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसे ई-प्रोक्यूरमेन्ट पर भी तकनिकी बिड के साथ अपलोड करना होगा-
  - (i) बोली दाता द्वारा बोली दस्तावेज [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल से सही ढंग से डाउनलोड नहीं कर पाने पर उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  - (ii) बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह विड दस्तावेजों के निर्देशों, फार्मस, शर्तें, स्पेशिफिकेशन, को भलीभाँति रूप से पढ़ ले/समझ ले, उपापन संस्था द्वारा निविदा के साथ चाही गई सूचनाएं, डोक्यूमेन्ट प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
6. **बोली दस्तावेजों में संशोधन:-**
  - (i) यदि आवश्यक हो तो, क्रेता अधिकारी विड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व किसी भी समय स्वयं (SUO Moto) बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकेगा, जारी किया गया संशोधन विड दस्तावेज का हिस्सा/पार्ट होगा।
  - (ii) उपापन संस्था द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधन बोली दस्तावेजों का हिस्सा होगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये संशोधन को [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

7. **बोली (बिड) की लागत:**—बोली तैयार करने से हेतु सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी, उपापन संस्था ऐसी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
8. **बोली (बिड) प्राइज और डिस्काउण्ट:**—
- प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्राइज बिड बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न एक्सल फॉर्मेट, (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता (बिडर) द्वारा BOQ को मोडीफाई/रिप्लेस नहीं किया जावे, केवल रिलेवेन्ट कॉलमों में ही दरे भरी जावे। बोलीदाता (बिडर) द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती किये जाने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो इसके लिए बोलीदाता (बिडर) स्वयं जिम्मेदार होगा।
  - यदि बोलीदाता द्वारा BOQ में बेसिक प्राइज कॉलम नहीं भरा जाता है तो बिड रिजक्ट की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता (बिडर) की होगी।
9. **बोलियों को हस्ताक्षरित किया जाना :**— बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर, समस्त निबन्धों एवं शर्तों की सहमति के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षर करेगा। बिना हस्ताक्षर किये प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. **बोलियों का प्रत्याहरण (Withdrawal) :**— किसी भी बोली का प्रत्याहरण (Withdrawal) प्रति स्थापना या उपापन बोलियों के प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक और समय के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।
11. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त (Forfited) करना :**—
- (क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण या आंशिक (पार्टली) निम्न मामलों में जब्त कर ली जावेगी :—
  - (i) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या
  - (ii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या
  - (iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में संतोषप्रद रूप से कार्य करने में विफल रहता है; या
  - (iv) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या
  - (v) जब बोलीदाता किसी अन्य अनुबन्ध के तहत देय राशि उपापन संस्था को भुगतान करने में विफल रहता है; या
  - (vi) यदि बोलीदाता इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में बोलीदाताओं के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।
- नोट :— उपापन संस्था द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करने से पूर्व बोलीदाता को स्पष्टीकरण देने हेतु युक्तियुक्त (पर्याप्त) समय दिया जायेगा। उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।
12. **अपील:**— RTPP अधिनियम 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुये, यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत जारी नियमों के उल्लंघन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को निर्णय की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्म अनुलग्न-'C' में निर्धारित फीस की राशि के साथ अपील दाखिल कर सकेगा।

13. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र का पूर्णतः अध्ययन कर भरा जावे एवं प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किये जावे, जिससे यह समझा जावे कि आप द्वारा निविदा की सभी नियम व शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्त एवं नियम निविदादाता को मान्य है।
14. निविदा प्रपत्र में ही निविदा भरी जावे। निविदा के साथ निविदादाता द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना दस्तावेजों के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
15. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कांट छांट मान्य नहीं होगी। यदि कांट छांट की जाती है तो संबंधित निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील के साथ ही मान्य होगी। कांट छांट पर हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर पूर्ण निविदा निरस्त समझी जावेगी।
16. निविदा शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट Rajasthan State Seeds Corporation Ltd. एवं ई-निविदा हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट MD, RISL, Jaipur के नाम बनवाकर निर्धारित समय तक राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंत कृषि भवन, मुख्यालय, जयपुर पर जमा कराना अनिवार्य होगा।
17. उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधी के समक्ष निर्धारित तिथि व समय पर तकनीकी निविदा खोली जावेगी।
18. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
19. निविदा में दी गई दरें ही मान्य होगी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
20. यह निविदा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार एवं [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) द्वारा ई-निविदा हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं चैक लिस्ट में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही भरी एवं अपलोड की जावे।
21. (अ) बोलीदाता (बिडर) द्वारा फार्म ठेके पर लिये जाने के क्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र 3 वर्ष की फार्मवार निर्धारित सुरक्षित राशि का 1/3 (एक तिहाई) निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।  
(ब) यदि कोई निविदादाता 1 से अधिक फार्मों के लिए निविदा प्रस्तुत करता है तो उसे हैसियत प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत फार्म हेतु निर्धारित सुरक्षित राशि को जोड़ते हुये प्रस्तुत करना होगा।  
(स) किसी भी परिवार/व्यक्ति/ठेकेदार/संस्थान द्वारा फार्म ठेके पर लिये जाने के क्रम में चल व अचल सम्पत्ति का विवरण स्वयं द्वारा सत्यापित कर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
22. ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को निविदा के साथ फार्मवार अमानत राशि के स्थान पर 50/- रु. के स्टाम्प पेपर पर BID Security Declaration संलग्न Annexure-E में तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्टाम्प पेपर राजस्थान से ही क्रय किया जाना अनिवार्य होगा। स्टाम्प राजस्थान से क्रय नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। **BID Declaration** हेतु प्रस्तुत किये जाने वाला स्टाम्प इस निविदा हेतु क्रय किया हुआ ही मान्य होगा। पूर्व निविदा में उपयोग में लिया गया स्टाम्प मान्य नहीं होगा। **Declaration** में बिड नम्बर एवं दिनांक भी अंकित करना आवश्यक होगा।
23. निविदा फार्म निर्धारित फीस निविदा शुल्क मय GST 1180/- रु. एवं ई-निविदा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क 590 रु. निविदा खोलने की दिनांक 07.06.2021 को समय मध्यान्ह 1.00 बजे तक जमा कराना होगा।
24. ई-निविदा ऑन-लाइन 07.06.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। ई-निविदाएं दिनांक 07.06.2021 को अपरान्ह 2:00 बजे खोली जावेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
25. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली ऑफर न्यूनतम 90 दिवस के लिए ही मान्य होगा, 90 दिवस से कम अवधि के लिए प्रस्तुत की गई बिड निरस्त कर दी जावेगी।



26. बोलीदाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड बोली दस्तावेजों में उपलब्ध निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जाएं। तकनीकी बिड के सम्पूर्ण कॉलम को आवश्यक रूप से भरा जावे। बिड फार्म में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। तकनीकी बिड में दरें प्रस्तुत करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
27. बिड के साथ प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेज:- बोली दो लिफाफे में (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत की जावेगी।

तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होगा:-

- i. पैर नम्बर विवरण एवं उसकी छायाप्रति।
  - ii. 100 रु. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था/डीबार/काली सूचिबद्ध नहीं है।
  - iii. निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/ऑन लाईन जमा राशि की रसीद की छायाप्रति।
  - iv. BID Security Declaration 50/- रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (Annexure-E)।
  - v. पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मोहर एवं हस्ताक्षर।
  - vi. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र न्यूनतम राशि फार्मवार।
  - vii. स्वयं द्वारा सत्यापित चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।
28. ठेकेदार द्वारा फार्म 3 वर्ष हेतु ठेके पर लेने हेतु 3 वर्ष की दर प्रस्तुत करनी होगी।
- (i) ठेकेदार द्वारा दरें 3 वर्ष के लिए एक ही दर दी जावे।
  - (ii) फार्म के ठेके 3 वर्ष के लिए दिये जावेगें। ठेके हेतु वर्ष का निर्धारण 01 जून से 31 मई रहेगा। ठेकेदार को फार्म 01 जून को संभलाना जाकर ठेका समाप्ति पर 31 मई को निगम को फार्म पुनः संभलाना होगा।
29. अनुबन्ध की शर्तों के तहत दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा अपना पक्ष प्रमुख शासन सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन को प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रमुख शासन सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
30. ठेका स्वीकृति की सूचना देने के पन्द्रह दिवस के अन्दर सफल निविदा दाता को निविदा की शर्तों का 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा। अनुबंध के साथ ठेकेदार द्वारा कुल ठेका राशि का 2.50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि व अग्रिम चैक निम्नानुसार राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर में जमा कराने होंगे। निर्धारित समय पर अनुबंध नहीं करने एवं SD राशि जमा नहीं कराने पर आर.टी.पी.पी. नियमों के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी। सफल ठेकेदार का चयन अधिकतम ठेका राशि के आधार पर किया जावेगा-
- I. प्रतिभूति राशि - कुल स्वीकृत ठेका राशि की 2.50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में प्रबन्ध निदेशक, राजसीड्स, मुख्यालय, जयपुर में जमा करानी होगी।
  - II. ठेका राशि का भुगतान-

(1) कार्यादेश से पूर्व अनुबन्ध के समय कुल ठेका राशि की 8.33 प्रतिशत राशि एकमुश्त क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में जमा करानी होगी। ठेके के लिए शेष राशि के 11 समान किस्तों के चैक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में जमा कराने होंगे। इन चैको में किस्त जमा कराने की अन्तिम दिनांक अंकित होगी। इसके लिए सभी चैको पर किस्त की नियत राशि एवं वसूली की अंतिम दिनांक क्रमशः 30 सितम्बर 2021, 31 जनवरी 2022 एवं 15 मई 2022, 30 जून 2022, 30 सितम्बर 2022, 31 जनवरी 2023, 15 मई 2023, 30 सितम्बर 2023, 31 जनवरी 2024, 15 मई 2024 एवं 30 जून 2024 अंकित करते हुए प्रस्तुत करने होंगे।

(2) फार्म ठेके के प्राप्त चैक निर्धारित तिथि को बैंक में जमा कराये जावेंगे तथा चैक बाउन्स होने की स्थिति में ठेकेदार को फार्म पर कार्य नहीं करने दिया जावेगा एवं ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी तथा एक माह की देरी तक राशि जमा कराने पर प्रति सप्ताह चैक की राशि का एक प्रतिशत की दर से जुर्माना राशि वसूल की जायेगी। एक माह के बाद राशि जमा कराने की स्थिति में चैक की राशि का 5 प्रतिशत जुर्माना राशि वसूल की जावेगी। जुर्माना राशि माफ करने या कम करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

31. निविदा शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र (Agreement) नहीं करने एवं निर्धारित धरोहर राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
32. ठेकेदार द्वारा उपरोक्तानुसार अनुबन्ध करने, प्रतिभूति राशि व पूर्ण ठेका राशि के चैक जमा करवाने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जावेगा। इसके बाद फार्म अनुमोदित ठेकेदार को नियमानुसार सौंपा जायेगा। कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात ही क्षेत्रीय प्रबन्धक/मुख्यालय द्वारा अनुमोदित फार्म प्लान के अनुसार सम्बन्धित संयन्त्र प्रबन्धक बीजोत्पादन हेतु बीज उपलब्ध करायेगा।
33. प्रतिभूति राशि (SD) ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ठेकेदार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बकाया नहीं होने पर लौटायी जावेगी। प्रतिभूति राशि हेतु ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित संयन्त्र प्रबन्धक से बकाया नहीं का प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) प्राप्त कर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में जमा कराना होगा।
34. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/नोटिफिकेशन लागू होंगे।
35. दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार होगा।

### फार्म ठेका शर्तें:-

1. यदि राज्य सरकार द्वारा निगम के किसी फार्म की अथवा फार्म के हिस्से की मांग की जाती है तो राज्य सरकार की मांग के मददेनजर ठेकेदार को पूर्ण फार्म अथवा फार्म के निर्देशित हिस्से को पुनः निगम को लौटाना होगा (इस बाबत सीजन समाप्ति के साथ ही अथवा तीन माह के नोटिस पर फार्म का हिस्सा अथवा पूरा फार्म निगम को पुनः लौटाना होगा)। निगम को प्राप्त होने वाली ठेके की राशि का निर्धारण इसी के अनुरूप किया जाएगा तथा निर्धारित राशि ठेकेदार को बिना किसी शर्त के माननी होगी।
2. फार्म जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा तथा निविदा पश्चात फार्म पर किसी भी अन्य सुविधा की यदि मांग की जाती है तो वह मान्य नहीं होगी। जिन फार्मों पर सिंचाई का साधन या ट्यूबवेल स्थित है वहाँ ठेकेदार अपने स्वयं के संसाधनों से ही इनका पानी उपयोग में ले सकता है।
3. फार्म को ठेके पर लेने के उपरान्त किसी भी कारण अथवा परिस्थितिवश फसल नहीं हो पाती है तो निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. बीजोत्पादन के लिए आधार/प्रजनक बीज निगम द्वारा निर्धारित दर पर राशि जमा कराने पर विक्रय किया जावेगा।
5. फार्म पर ठेकेदार द्वारा बिजली के किये गये समस्त प्रकार के उपयोग (निगम की सबमर्सिबल मोटर लगी होने पर ठेकेदार द्वारा उसका उपयोग करने व अन्य उपयोग) करने पर बिजली के बिल का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा। ठेकेदार द्वारा ट्यूबवेल/बोरवेल/कुँए तथा अन्य बिजली कनेक्शन का उपयोग नहीं करने की दशा में भी बिजली विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले न्यूनतम बिल का भुगतान भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर किया जाना अनिवार्य होगा। बिजली बिल के भुगतान की रसीद क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जमा करानी होगी। बिजली/अन्य कृषि उपकरण/मशीनरी की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी।
6. फार्म पर उपलब्ध कृषि उपकरण/मशीनरी देने या न देने का निर्णय निगम का होगा। निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी समस्त मशीनरी व मोटर आदि की मरम्मत, रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
7. ठेकेदार फार्म के ठेके से पूर्व फार्म पर स्थित समस्त परिसम्पत्ति (चल व अचल) हेतु अन्डरटेकिंग देगा व ठेका पूर्ण होने पर यथा स्थिति में निगम को लौटायेगा। विभागीय भवनों का व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का ह्रास या नुकसान होने की स्थिति में इसकी भरपायी ठेकेदार से की जावेगी।
8. पानी की नालियां/सिंचाई धोरे इत्यादि की सफाई स्वयं को करनी होगी।
9. बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए पृथक्करण दूरी, रोगिंग व अन्य कार्य प्रमाणीकरण मापदण्डों के अनुसार ही रखना/करना होगा।
10. बीज की बुवाई, रोगिंग, फसल कटाई, थ्रेसिंग, बीज को बोरियों में भरना इत्यादि कार्य निगम प्रतिनिधि के निर्देशानुसार ही सम्पन्न कराये जावेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. यदि ठेकेदार द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा अन्तिम निरीक्षण के दौरान दी गयी न्यूनतम अनुमानित उपज के 80 प्रतिशत से कम रॉ बीज जमा कराया जाता है तो उसे क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में उस सीजन के छः माह(खरीफ सीजन की फसलों के लिए अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा रबी फसलों के लिए अक्टूबर से मार्च माह तक) के ठेके की राशि का 5 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में जमा करानी होगी। यदि प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा अनुमानित उपज आंकलन करने के पश्चात् मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से उत्पादन न्यूनतम अनुमानित उपज से कम होता है तो उक्त परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जुर्माना राशि माफ करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को होगा।
12. बीजोत्पादन के लिए कृषि विभाग की सिफारिशों के अनुसार बीज उपचार, खाद एवं उर्वरक उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग इत्यादि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रयोग में लाने होंगे।
13. बीज उत्पादन प्रक्रिया पर होने वाले समस्त प्रकार के खर्च ठेकेदार को वहन करने होंगे।
14. फार्म पर जो भी परिसम्पत्तियां ठेकेदार को सौंपी जायेंगी, उनकी सुरक्षा तथा ठेका अवधि समाप्त होने के बाद उनको वापिस उसी अवस्था में निगम को लौटाने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा निगम की किसी परिसम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर या निगम को वापिस नहीं लौटाने पर निगम को होने वाली हानि का आंकलन क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जावेगा तथा यह राशि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
15. फार्म पर स्थित समस्त पेड़ों/वृक्षों पर संख्या (नम्बर) का आंकलन निगम द्वारा किया गया है जिनको पूर्ण संख्या में ठेका समाप्ति के पश्चात सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक को गिनवाने होंगे तथा यदि इसमें कमी पायी जाती है या ठेकेदार द्वारा पेड़ों की कटाई करवायी जाती है तो ठेकेदार से इनकी कीमत वसूल की जावेगी तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जावेगी। ठेकेदार द्वारा फार्म पर उपलब्ध घास/लूम/पातडी का निस्तारण करने से पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचना देनी होगी तथा निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही इनके निस्तारण की कार्यवाही करवायी जा सकेगी।
16. ठेकेदार द्वारा फार्म ठेके पर कृषि विभाग के मानदण्डों के अनुसार किसी एक वर्ष में गोबर की खाद (एफ.वाई.एम.) का प्रयोग करना होगा।
17. फार्म पर उत्पादित बीज की राशि का भुगतान ठेकेदार को निगम की निर्धारित क्रय नीति के अनुसार किया जायेगा तथा बीज उत्पादन व विधायन के समस्त व्यय सामान्य बीज उत्पादकों की तरह स्वयं ठेकेदार को वहन करने होंगे।
18. ठेकेदार को क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा बीजोत्पादन हेतु निर्धारित किये गये फार्म प्लान के अनुसार ही बीजोत्पादन लेना होगा तथा अन्य कोई भी फसल नहीं बोई जायेगी। यदि फार्म प्लान के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की फसल ठेकेदार द्वारा बोयी जाती है तब संबंधित फार्म की कुल ठेका राशि की 5 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में संबंधित ठेकेदार से वसूली जायेगी। मुख्यालय द्वारा चारा फसलों के बीजोत्पादन कार्यक्रम का आवंटन किये जाने पर फार्म के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल पर चारा बीजोत्पादन भी लिया जाना अनिवार्य होगा। बीजोत्पादन हेतु निर्धारित किये गये फार्म प्लान में क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। फार्मों पर मुख्य रूप से प्रजनक से आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम ही आवंटित किया जावेगा। प्रजनक बीज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार से प्रमाणित बीजोत्पादन कार्यक्रम का आवंटन क्षेत्रीय प्रबंधक की अनुमति के उपरान्त किया जा सकेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी फार्म प्लान के अनुसार सम्बन्धित संयन्त्र प्रबंधक द्वारा बीजोत्पादन हेतु बीज उपलब्ध करवाया जाकर बीजोत्पादन कार्यक्रम का आयोजन कराया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

19. ठेकेदार का स्टेटस केवल एक लाइसेंसी का होगा व उसे केवल बीज उत्पादन के लिए फार्म को काम में लेने का हक होगा। फार्म पर सदैव कब्जा निगम का रहेगा व ठेका अवधि के अन्तिम सीज़न में फार्म पर उत्पादित रॉ बीज निगम के विधायन संयन्त्र पर जमा कराने के पश्चात ठेकेदार का फार्म में प्रवेश बन्द कर दिया जायेगा।
20. ठेकेदार को फार्म के किसी भी क्षेत्र को अन्य कृषकों को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
21. फार्म पर लिये जाने वाला बीजोत्पादन कार्यक्रम का फार्म प्लान संबंधित निगम इकाई के संयंत्र प्रबन्धक/बीज अधिकारी द्वारा संबंधित ठेकेदार को उपलब्ध करवाया जायेगा।
22. ठेकेदार द्वारा यदि फार्म ठेका अवधि के मध्य में ठेका छोड़ा जाता है तो फार्म ठेके की समस्त बकाया राशि फार्म ठेकेदार द्वारा निगम को देय होगी।


निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम .....

पता .....

.....

.....



# राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

## निगम फार्मों की तकनीकी निविदा हेतु संलग्नकों की चेक लिस्ट

क्र.सं.	आईटम	जमा करवाने की प्रक्रिया	
1	निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।	{ }
2	अमानत राशि के स्थान पर 50/- रु. के स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्योरिटी घोषणा-पत्र निर्धारित प्रपत्र Annexure-E।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।	{ }
3	पैन नम्बर।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।	{ }
4	पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मोहर एवं हस्ताक्षर हो।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।	{ }
5	100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ-पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा डीबार नहीं है।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।	{ }
6	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र न्यूनतम राशि रु. (आरक्षित राशि का 1/3 (एक तिहाई) राशि)।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।	{ }
7	स्वयं द्वारा सत्यापित चल-अचल सम्पत्ति का दिवरण।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।	{ }

नोट:- उपरोक्तानुसार दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर निविदा निरस्त समझी जावेगी।

हस्ताक्षर मय सील निविदादाता

नाम:

पूरा पता:

## Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or **influence** the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

**Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of  
No..... in response to their Notice Inviting Bids

Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in  
Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or' to have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. That our firm is not involved in any litigation with any state/central govt. depts./public undertaking etc.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:



## **Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is P.S.A., Department of Agriculture Government of Rajasthan.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Finance Department Government of Rajasthan.

### **(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### **(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

**(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under pars (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

**(6) Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

5/11

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement**

**Act, 2012**

Appeal No ..of ..

Before the (First / Second Appellate Authority)

**1. Particulars of appellant:**

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

**2. Name and address of the respondent(s):**

- (i)
- (ii)
- (iii)

**3. Number and date of the order appealed against**

and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

**4. If the Appellant proposes to be represented**

by a representative, the name and postal address of the representative:

**5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**

**6. Grounds of appeal:**

.....  
 .....  
 ..... Supported by an Affidavit)


**7. Prayer:**

.....  
 .....

Place .....

Date .....

Appellant's Signature



**Additional Conditions of Contract**

**1. Correction of arithmetical errors :**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

**2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed fiftypercent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:  
Place:

Signature of bidder  
Name :  
Designation  
Address:



**Form of Bid Securing Declaration  
(On non - judicial stamp paper of Rs. 50/-)**

Date:

Bid No. :

Alternative No. :

To :

.....  
.....

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- a) When the withdraw or modify our bid after opening of bids;
- b) When we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work/ order within the specified period;
- c) When we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the specified;
- d) When we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
- e) if we breach any provision of code integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the state Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- I. we are not the successful Bidder;
- II. the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- III. thirty days after the expiration of our Bid.
- IV. the cancellation of the procurement process; or
- V. the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed.: .....

Name : .....

In the capacity of : .....

Duly authorized to sign the bid for and behalf of :

Dated on                      day of

Corporate Seal .....

[Note : In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

**Declaration and Undertaking**

(on non-judicial stamp paper of Rs.100/-)

I (Name and complete address) \_\_\_\_\_ Sole Proprietor /  
authorised signatory of the firm (Name and complete address) \_\_\_\_\_ do hereby solemnly  
affirm and declare that the individual/ firm/ company is not blacklisted/banned/debarred during last  
three years on any ground by Bid Inviting Authority or Govt. of Rajasthan or its departments on the date  
of bid submission.

(Name of Deponent & Signature)

**Verification**

I ..... S/o .....(Designation) ..... Affirm on oath that the  
contents/information as mentioned above, are true & correct to the best of my knowledge and nothing  
is hidden. I also declare on oath that if any information furnished by me as above is found wrong, forged  
or fabricated the Corporation will be at liberty to cancel the Bid for which I shall be solely responsible  
and the firm may be Debarred/Banned/blacklisted/prosecuted for the same.

(Name of Deponent & Signature)

LM